

# Exo

## Chapter 7

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

אַחַיָּךְ	וְאַהֲרֹן	לְפָרְעָה	אֱלֹהִים	נָתַתִּי	רָאָה	מֹשֶׁה	אֶל-	יְהוָה	וַיֹּאמֶר	1
तेरा-भाई	और-हारून	फ़िरौन-के-लिए	परमेश्वर-करके	मैंने-दिया-है-तुझे	देख	मूसा	से	यहोवा-ने	और-कहा	
<a href="#">H0251</a>	<a href="#">H0175</a>	<a href="#">H6547</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0559</a>	
								יְהוָה	יְהוָה	
								तेरा-नबी	होगा	
								<a href="#">H5030</a>	<a href="#">H1961</a>	

यहोवा ने मूसा से कहा, "मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। फ़िरौन के लिए तुम एक महान राजा की तरह होगे और हारून तुम्हारा अधिकृत वक्ता होगा।

פָּרְעָה	אֶל-	יְדַבֵּר	אַחַיָּךְ	וְאַהֲרֹן	אֶצְנִי	אֲשֶׁר	כָּל-	אֵת	תְּדַבֵּר	אֵתָהּ	2
फ़िरौन	से	बोलेगा	तेरा-भाई	और-हारून	मैं-आज़ा-दूँगा-तुझे	जो	सब	को	बोलेगा	तू	
<a href="#">H6547</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H0251</a>	<a href="#">H0175</a>	<a href="#">H6680</a>		<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1696</a>		
					מְאֲרָצוֹ:	יִשְׂרָאֵל	בָּנֵי-	אֶת-	וְשָׁלַח		
					अपने-देश-से	इसाएल-के	बेटों	को	और-वह-भेजे		
					<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H3478</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7971</a>		

जो आदेश मैं दे रहा हूँ वह सब कुछ हारून से कहो। तब वह वे बातें जो मैं कह रहा हूँ, फ़िरौन से कहेगा और फ़िरौन इस्राएल के लोगों को इस देश से जाने देगा।

מוֹפְתֵי	וְאֶת-	אֵתָתִי	אֵת-	וְהַרְבִּיתִי	פָּרְעָה	לֵב	אֶת-	אֶקְשֶׁה	וְאֲנִי	3	
मेरे-अद्भुतों	और-को	मेरे-चिह्नों	को	और-मैं-बहुत-करूँगा	फ़िरौन-का	हृदय	को	कठोर-करूँगा	और-मैं		
<a href="#">H4159</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0226</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H6547</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7185</a>	<a href="#">H0589</a>		
								מִצְרַיִם:	בְּאֶרֶץ		
								मिस्र-के	देश-में		
								<a href="#">H4714</a>	<a href="#">H0776</a>		

किन्तु मैं फ़िरौन को हठी बनाऊँगा। वह उन बातों को नहीं मानेगा जो तुम कहोगे। तब मैं मिस्र में बहुत से चमत्कार करूँगा। किन्तु वह फिर भी नहीं सुनेगा।

אֶת-	וְהִנָּחֵאתִי	בְּמִצְרַיִם	יָדִי	אֶת-	וְנָתַתִּי	פָּרְעָה	אֶלְכֶם	וְשָׁמַעַ	וְלֹא-	4	
को	और-मैं-निकालूँगा	मिस्र-पर	अपना-हाथ	को	और-मैं-रखूँगा	फ़िरौन	तुम्हारी	वह-सुनेगा	और-नहीं		
<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H4714</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H6547</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H3808</a>		
		גְּדֹלִים:	בְּשָׁפְטִים	מִצְרַיִם	מְאֲרָץ	יִשְׂרָאֵל	בָּנֵי-	עַמִּי	אֶת-	צְבָאוֹתַי	
		बड़े	न्यायों-से	मिस्र-के	देश-से	इसाएल-के	बेटों	मेरी-प्रजा	को	मेरी-सेनाओं	
			<a href="#">H8201</a>	<a href="#">H4714</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H3478</a>			<a href="#">H0853</a>		

इसलिए तब मैं मिस्र को बुरी तरह दण्ड दूँगा और मैं अपने लोगों को उस देश के बाहर ले चलूँगा।

מִצְרַיִם	עַל-	יָדִי	אֶת-	בְּנִטְתִּי	יְהוָה	אֲנִי	כִּי-	מִצְרַיִם	וְיָדַעַ	5	
मिस्र	के-ऊपर	अपना-हाथ	को	जब-मैं-बढ़ाऊँगा	यहोवा-हूँ	मैं	कि	मिस्र	और-जानेंगे		
<a href="#">H4714</a>		<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5186</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0589</a>		<a href="#">H4713</a>	<a href="#">H3045</a>		
				מתוכם:	יִשְׂרָאֵל	בָּנֵי-	אֶת-	וְהִנָּחֵאתִי			
				उनके-बीच-से	इसाएल-के	बेटों	को	और-मैं-निकालूँगा			
				<a href="#">H8432</a>	<a href="#">H3478</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3318</a>			

तब मिस्र के लोग जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं उनके विरुद्ध हो जाऊँगा, और वे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब मैं अपने लोगों को उनके देश से बाहर ले जाऊँगा।"

6 **וַיַּעַשׂ** और-किया **מֹשֶׁה** मूसा-ने **וַאֲהָרֹן** और-हारून-ने **כַּאֲשֶׁר** जैसा **צִוָּה** आज्ञा-दी-थी **יְהוָה** यहोवा-ने **אָתָּם** उन्हें **בֵּן** वैसा-ही **עָשׂוּ:** किया **H0413** **H1696** **H8141** **H8084** **H7969** **H3068** **H6680** **H0175** **H4872**

मूसा और हारून ने उन बातों का पालन किया जिन्हें यहोवा ने कहा था।

7 **וּמֹשֶׁה** और-मूसा **בֶּן-** बेटा-था **שְׁמֹנִים** अस्सी **שָׁנָה** वर्ष-का **וַאֲהָרֹן** और-हारून **בֶּן-** बेटा-था **שְׁלֹשׁ** तीन **וּשְׁמֹנִים** और-अस्सी **שָׁנָה** वर्ष-का **בְּדִבְרָם** जब-उन्होंने-बोला **אֶל-** से **H0413** **H1696** **H8141** **H8084** **H7969** **H0175** **H8141** **H8084** **H4872**

**פְּרָעָה:** फ़िरौन  
— **H6547**

इस समय मूसा अस्सी वर्ष का था और हारून तिरासी का।

8 **וַיֹּאמֶר** और-कहा **יְהוָה** यहोवा-ने **אֶל-** से **מֹשֶׁה** मूसा **וְאֶל-** और-से **אַהֲרֹן** हारून **לֵאמֹר:** कहते-हुए **H0559** **H0175** **H0413** **H4872** **H0413** **H3068** **H0559**

यहोवा ने मूसा और हारून से कहा,

9 **כִּי** जब **יִדְבַר** वह-बोले **אֲלֵכֶם** तुम-से **פְּרָעָה** फ़िरौन **לֵאמֹר** कहते-हुए **דְּוֹ** दो **לְעֹשׂוֹ** अपने-लिए **מִזְבַּח** अद्भुत **וְאָמַרְתָּ** और-तू-कहना **אֶל-** से **אַהֲרֹן** हारून **לֵךְ** ले **H3947** **H0175** **H0413** **H0559** **H4159** **H5414** **H0559** **H6547** **H0413** **H1696**

**אֶת-** को **מִטְּהָרָה** अपनी-लाठी **וְהִשְׁלַחְךָ** और-फेंक **לְפָנַי** के-सामने **פְּרָעָה** फ़िरौन **יְהִי** वह-ही-जाएगी **לְתַנּוּן:** साँप **H1961** **H6547** **H6440** **H7993** **H4294** **H0853**

“फ़िरौन तुमसे तुम्हारी शक्ति को प्रमाणित करने के लिए कहेगा। वह तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए कहेगा। तुम हारून से उसकी लाठी ज़मीन पर फेंकने को कहना। जिस समय फ़िरौन देख रहा होगा तभी लाठी साँप बन जाएगी।”

10 **וַיָּבֹא** और-आया **מֹשֶׁה** मूसा **וַאֲהָרֹן** और-हारून **אֶל-** के-पास **פְּרָעָה** फ़िरौन **וַיַּעַשׂוּ** और-उन्होंने-किया **בֵּן** वैसा-ही **כַּאֲשֶׁר** जैसा **צִוָּה** आज्ञा-दी-थी **יְהוָה** यहोवा-ने **H3068** **H6680** **H6547** **H0413** **H0175** **H4872** **H0935**

**וַיִּשְׁלַח** और-फेंका **אַהֲרֹן** हारून-ने **אֶת-** को **מִטְּהָרָה** अपनी-लाठी **לְפָנַי** के-सामने **פְּרָעָה** फ़िरौन **וּלְפָנַי** और-के-सामने **עֲבָדָיו** उसके-दासों **וַיְהִי** और-हो-गई **לְתַנּוּן:** साँप **H1961** **H5650** **H6440** **H6547** **H6440** **H4294** **H0853** **H0175** **H7993**

इसलिए मूसा और हारून फ़िरौन के पास गए और यहोवा की आज्ञा का पालन किया। हारून ने अपनी लाठी नीचे फेंकी। फ़िरौन और उसके अधिकारियों के देखते-देखते लाठी साँप बन गयी।

11 **וַיִּקְרָא** और-बुलाया **גַּם-** भी **פְּרָעָה** फ़िरौन-ने **לְחַכְמָיו** ज्ञानियों-को **וְלְמִכְשָׁפָיו** और-टौनहियों-को **וַיַּעַשׂוּ** और-किया **גַּם-** भी **הֵם** उन्होंने **חַדְגָּוִים** जादूगरों-ने **מִצְרַיִם** मिस्र-के **H4714** **H2748** **H1992** **H1571** **H3784** **H2450** **H6547** **H1571** **H7121**

**בְּלִחְטָיהֶם** अपने-जादू-से **בֵּן:** वैसा-ही **H3858**

इसलिए फ़िरौन ने अपने गुणी पुरुषों और जादूगरों को बुलाया। इन लोगों ने अपने रहस्य चातुर्य का उपयोग किया और वे भी हारून के समान कर सके।

12 **וַיִּשְׁלִיכוּ** और-फेंका **אִישׁ** प्रत्येक-ने **מִטְּהָרָה** अपनी-लाठी **וַיְהִי** और-हो-गई **לְתַנּוּנָם** साँपें **וַיִּבְלַע** और-निगल-गई **אֶת-** को **אַהֲרֹן** हारून-की **מִטְּהָרָה** लाठी-ने **מִצְרַיִם** उनकी-लाठियों **H4294** **H0853** **H0175** **H4294** **H1104** **H1961** **H4294** **H0376** **H7993**

उन्होंने अपनी लाठियाँ ज़मीन पर फेंकी और वे साँप बन गईं। किन्तु हारून की लाठी ने उनकी लाठियों को खा डाला।

13 וַיְחַזֵּק לֵב פַּרְעֹה וְלֹא שָׁמַע אֲלֵהֶם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה: פ  
— यहोवा-ने कहा-था जैसा उनकी उसने-सुना और-नहीं फिरौन-का हृदय और-कठोर-हो-गया  
H3068 H1696 H0413 H8085 H3808 H6547 H2388

फ़िरौन ने फिर भी, लोगों का जाना मना कर दिया। यह वैसा ही हुआ जैसा यहोवा ने कहा था। फिरौन ने मूसा और हारून की बात सुनने से मना कर दिया।

14 וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה כִּבְדֵהוּ לֵב פַּרְעֹה מֵאֵן לְשַׁלַּח הָעָם:  
प्रजा-को भेजने-से वह-मना-करता-है फिरौन-का हृदय भारी-है मूसा से यहोवा-ने और-कहा  
H7971 H3985 H6547 H3515 H4872 H0413 H3068 H0559

तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, “फ़िरौन हठ पकड़े हुए है। फिरौन लोगों को जाने से मना करता है।

15 לָךְ אֶל-פַּרְעֹה בְּבִקְרֵה הַנְּהַךְ יֵצֵא הַמַּיִמָּה וַיַּצֵּב אוֹר-טוּ-खड़ा-होना पानी-पर वह-निकलता-है देख सुबह-को फिरौन के-पास जा  
H7125 H5324 H4325 H3318 H2009 H1242 H6547 H0413 H3212

עַל-שֵׁפֶת הַיָּאֵר וְהַמַּטָּה אֲשֶׁר-יִבְרָא לְנַחֲשׁ תִּקַּח בְּיָדְךָ:  
के-ऊपर तट नील-नदी-के और-लाठी जो और-लाठी निल-नदी-के तट के-ऊपर  
H3027 H3947 H5175 H2015 H4294 H2975 H8193

सवरे फ़िरौन नदी पर जाएगा। उसके साथ नील नदी के किनारे—किनारे जाओ। उस लाठी को अपने साथ ले लो जो साँप बनी थी।

16 וַאֲמַרְתָּ אֵלָיו יְהוָה אֱלֹהֵי הָעֵבְרִים אֵלָיִךְ יִשְׁלַח לְאֹמֶר שְׁלַח אֶת-קוֹ בְּהֵז אֲלֵיךָ אֲלֵיךָ אֲלֵיךָ אֲלֵיךָ  
को भेज कहते-हुए तेरे-पास उसने-भेजा-है-मुझे इब्रानियों-का परमेश्वर यहोवा उस-से और-तू-कहना  
H0853 H7971 H0559 H0413 H7971 H5680 H0430 H3068 H0413 H0559

עֲמִי מֵרִי-प्रजा וְיַעֲבֹדְנִי אֲוֵ-वे-सेवा-करें-मेरी और-देख जंगल-में और-वे-सेवा-करें-मेरी मेरी-प्रजा  
H3541 H5704 H8085 H3808 H2009 H5647

उससे यह कहो, ‘हिब्रू लोगों के परमेश्वर यहोवा ने हमको तुम्हारे पास भेजा है। यहोवा ने मुझे तुमसे यह कहने को कहा है, मेरे लोगों को मेरी उपासना करने के लिए मरुभूमि में जाने दो। तुमने भी अब तक यहोवा की बात पर कान नहीं दिया है।

17 כֹּה אָמַר יְהוָה בְּזֹאת תִּדְרַע כִּי אֲנִי יְהוָה יֹהֵךְ אֲנִי יֹהֵךְ אֲנִי יֹהֵךְ  
लाठी-से मारता-हूँ मैं देख यहोवा-हूँ मैं कि मैं मैं मैं मैं  
H4294 H5221 H0595 H2009 H3068 H0589 H3045 H2063 H3068 H0559 H3541

אֲשֶׁר-יִבְרָא לְנַחֲשׁ וְיַעֲבֹדְנִי אֲוֵ-वे-सेवा-करें-मेरी और-देख जंगल-में और-वे-सेवा-करें-मेरी मेरी-प्रजा  
लहू-में और-वह-बदल-जाएगा नील-नदी-में-है जो पानी के-ऊपर मेरे-हाथ-में-है जो  
H1818 H2015 H2975 H4325 H3027

इसलिए यहोवा कहता है कि, मैं ऐसा करूँगा जिससे तुम जानोगे कि मैं यहोवा हूँ। जो मैं अपने हाथ की इस लाठी को लेकर नील नदी के पानी पर मारूँगा और नील नदी खून में बदल जाएगी।

18 וְהַדְרִיגָה אֲשֶׁר-יִבְרָא לְנַחֲשׁ וְיַעֲבֹדְנִי אֲוֵ-वे-सेवा-करें-मेरी और-देख जंगल-में और-वे-सेवा-करें-मेरी मेरी-प्रजा  
पीने-से मिस्र और-थक-जाएंगे नील-नदी और-बदबू-मारेगी मर-जाएगी नील-नदी-में-है जो और-मछली  
H8354 H4713 H3811 H2975 H0887 H4191 H2975 H1710

מֵי-הַיָּאֵר: מִן-הַיָּאֵר: מֵי-הַיָּאֵר: מִן-הַיָּאֵר:  
— नील-नदी से पानी  
H2975 H4325

तब नील नदी की मछलियाँ मर जाएंगी और नदी से दुर्गन्ध आने लगेगी। और मिस्री लोग नदी से पानी नहीं पी पाएँगे।”

עַל- יְרַךְ וַיִּטָּה- מִטָּוֶה קָח אֶהָרֶן אֶל- אָמַר מִשָּׁה אֶל- יְהוָה וַיֹּאמֶר  
 के-ऊपर अपना-हाथ और-बढ़ा अपनी-लाठी ले हारून से कह मूसा से यहोवा-ने और-कहा  
[H3027](#) [H5186](#) [H4294](#) [H3947](#) [H0175](#) [H0413](#) [H0559](#) [H4872](#) [H0413](#) [H3068](#) [H0559](#)

כָּל- וְעַל אֲנָמִיָּהּ וְעַל- יְאֲרִיָּהֶם עַל- וַנְּהַרְתֶּם עַל- מִצְרַיִם מִיָּמִי  
 सब और-के-ऊपर उनके-तालाबों और-के-ऊपर उनकी-नहरों के-ऊपर उनकी-नदियों के-ऊपर मिस्र-के पानियों  
[H3605](#) [H0098](#) [H2975](#) [H5104](#) [H4714](#) [H4325](#)

וּבְעֵצִים וּמִצְרַיִם אֶרֶץ בְּכָל- דָּם וַיְהִי הָם וַיְהִי-וּ מִיָּמִיָּהֶם מִקְּוֵה  
 और-लकड़ियों-में मिस्र-के देश सारे लहू और-होगा लहू और-हो-जाए उनके-पानियों-के जलाशयों  
[H6086](#) [H4714](#) [H0776](#) [H3605](#) [H1818](#) [H1961](#) [H1818](#) [H1961](#) [H4325](#)

וּבְאֲבָנִים :  
 और-पत्थरों-में  
[H0068](#)

यहोवा ने मूसा को यह आदेश दिया, “हारून से कहो कि वह नदियों, नहरों, झीलों तथा तालाबों सभी स्थानों पर जहाँ मिस्र के लोग पानी एकत्र करते हैं, अपने हाथ की लाठी को बढ़ाए। जब वह ऐसा करेगा तो सारा जल खून में बदल जाएगा। सारा पानी, यहाँ तक कि लकड़ी और पत्थर के घड़ों का पानी भी, खून में बदल जाएगा।”

וַיַּעֲשֵׂה-וּ כֵן מִשָּׁה וַיֹּאמֶר-וּ וַאֲהָרֹן וַיִּטָּה-וּ וַיִּרָם וַיִּרָם בְּמִטָּה וַיָּךְ  
 और-मारालाठी-से और-उठाया यहोवा-ने आज्ञा-दी-थी जैसा और-हारून-ने मूसा-ने वैसा-ही और-किया  
[H5221](#) [H4294](#) [H3068](#) [H6680](#) [H0175](#) [H4872](#)

וַיַּהֲפֹכוּ וַיַּעֲבִדוּ וְלַעֲיִנִי פִרְעֹה לַעֲיִנִי בִיאָר אֲשֶׁר הַמַּיִם אֶת-  
 और-बदल-गया उसके-दासों और-आँखों-के-सामने फिरौन आँखों-के-सामने नील-नदी-में-था जो पानी को  
[H2015](#) [H5650](#) [H6547](#) [H2975](#) [H4325](#) [H0853](#)

כָּל- הַמַּיִם אֲשֶׁר- בִּיאָר לָדָם :  
 सारा पानी जो नील-नदी-में-था लहू-में  
[H4325](#) [H3605](#) [H1818](#) [H2975](#)

इसलिए मूसा और हारून ने यहोवा का जैसा आदेश था, वैसा किया। उसने लाठी को उठाया और नील नदी के पानी पर मारा। उसने यह फिरौन और उसके अधिकारियों के सामने किया। फिर नदी का सारा जल खून में बदल गया।

וַהֲרִיגָה אֲשֶׁר- בִּיאָר מוֹתָה וַיִּבְאֵשׁ הַיָּאָר וְלֹא- יָכִלוּ מִצְרַיִם לְשָׂתוֹת  
 और-मछली जो नील-नदी-में-थी मर-गई नील-नदी-ने और-बदबू-मारी और-नहीं पीने  
[H8354](#) [H4713](#) [H3201](#) [H3808](#) [H2975](#) [H0887](#) [H4191](#) [H2975](#) [H1710](#)

מַיִם מִן- הַיָּאָר וַיָּהִי הָרָם בְּכָל- אֶרֶץ מִצְרַיִם :  
 पानी से नील-नदी नील-नदी-था और-था लहू सारे देश मिस्र-के  
[H4325](#) [H2975](#) [H1818](#) [H1961](#) [H3605](#) [H0776](#) [H4714](#)

नदी में मछलियाँ मर गई और नदी से दुर्गन्ध आने लगी। इसलिए मिस्री नदी से पानी नहीं पी सकते थे। मिस्र में सर्वत्र खून था।

וַיַּעֲשֵׂה-וּ כֵן מִצְרַיִם בְּלִטְיָהֶם וַיִּחַק-וּ לִב- פִּרְעֹה וְלֹא-  
 और-किया और-किया वैसे-ही जादूगरो-ने मिस्र-के मिस्र-के जादूगरो-ने मिस्र-के अपने-जादू-से अपने-कठोर-हो-गया और-नहीं हृदय  
[H3808](#) [H6547](#) [H2388](#) [H3909](#) [H4714](#) [H2748](#)

שָׁמַע אֱלֹהִים כַּאֲשֶׁר דָּבַר יְהוָה :  
 उसने-सुना उनकी जैसा कहा-था यहोवा-ने  
[H8085](#) [H0413](#) [H1696](#) [H3068](#)

जादूगरो ने अपनी जादूगरी दिखाई और उन्होंने भी वैसा ही किया। इसलिए फिरौन ने मूसा और हारून को सुनने से इन्कार कर दिया। यह ठीक वैसा ही हुआ जैसा यहोवा ने कहा था।

וַיִּפֹּן וַיָּבֵן פִּרְעֹה וַיִּבֵּא אֶל- בֵּיתוֹ וְלֹא- שָׁת לְבוֹ גַם- לְזֹאת :  
 और-मुड़ा और-मुड़ा और-आया मैं अपने-घर और-नहीं उसने-लगाया भी अपना-हृदय इस-को  
[H6437](#) [H6547](#) [H0935](#) [H0413](#) [H3808](#) [H7896](#) [H1571](#) [H2063](#)

फिरौन मुड़ा और अपने घर चला गया। फिरौन ने, मूसा और हारून ने जो कुछ किया, उसकी उपेक्षा की।

לְשִׁתּוֹת יִכְלֹוּ לֹא כִי לְשִׁתּוֹת מַיִם הַיָּאֵר סְבִיבָת מִצְרַיִם כָּל- וַיִּחַפְּרוּ 24  
 पीने वे-सकते-थे नहीं क्योंकि पीने-के-लिए पानी नील-नदी-के चारों-ओर मिस्र-ने सब और-खोदा  
[H8354](#) [H3201](#) [H3808](#) [H8354](#) [H4325](#) [H2975](#) [H5439](#) [H4713](#) [H3605](#) [H2658](#)

הַיָּאֵר : מַמֵּי  
 नील-नदी-के पानियों-से  
[H2975](#) [H4325](#)

मिस्री नदी से पानी नहीं पी सकते थे। इसलिए पीने के पानी के लिए उन्होंने नदी के चारों ओर कुएँ खोदे।

פ : הַיָּאֵר : אֶת- יְהוָה הַכּוֹתֵת אַחֲרַי יָמַימ שְׁבַעַת וַיִּמְלֵא 25  
 — नील-नदी को यहोवा-के मारने-के बाद-में दिन सात और-पूरे-हो-गए  
[H2975](#) [H0853](#) [H3068](#) [H5221](#) [H3117](#) [H7651](#) [H4390](#)

यहोवा द्वारा नील नदी के बदले जाने के बाद सात दिन बीत गये।